



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 1979/अग्रहायण 6, 1901

No. 499]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 1979/AGRAHAYANA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1979

का० प्रा० 761 (अ).— केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को अद्यतन यथा संशोधित अधिसूचना सं० का० प्रा० 98(अ) औ० वि० प्रा० 73/1/तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

- (i) “विदेशी मुद्रा सीमा” से सम्बद्ध खण्ड (ग) की मध (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु,

- (1) ऐसी कच्ची सामग्री और संघटकों का मूल्य, जो मुक्त रूप से साधारण अनुज्ञप्ति पर उपलब्ध है, और जो किसी नये उपक्रम द्वारा किसी वस्तु के विनिर्माण में आवश्यक निवेश के रूप में है, ऊपर विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा सीमा की संगणना करने में गणना में नहीं लिया जाएगा ;

- (2) ऐसी कच्ची सामग्री की बाधत, जो मुक्त रूप से साधारण अनुज्ञप्ति पर उपलब्ध नहीं है किन्तु जो भागतः देश में उपलब्ध है और भागतः आयात की जाती है, अनुसूची vi में उल्लिखित कच्ची सामग्री को किसी नये उपक्रम के लिए अनुज्ञेय विदेशी मुद्रा सीमा की संगणना के प्रयोजनों के लिए “पूर्णतः आयातित” माना जाएगा ;

- (ii) अनुसूची V के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची-VI

(उन कच्ची सामग्रियों की सूची, जिन्हें विदेशी मुद्रा की संगणना के प्रयोजनों के लिए “पूर्णतः आयातित” माना जाएगा)

1. तांबा
2. जस्ता
3. लौह
4. निकल
5. टिन
6. गन्धक
7. डी० एम० टी०

8. राफ फास्फेट
9. एस्बेस्टास तंतु
10. मेथेनोल
11. 2-ईथिल हैक्सनोल (ओक्टेनोल)

[फाइल सं० 12/112/79-एल पी]
बादल राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1979

S.O. 761(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/73/1 dated the 16th February, 1973, amended upto date, namely :—

In the said notification,

- (i) in item (3), to clause (c) relating to "Foreign Exchange Limits", the following proviso shall be added namely :—

"Provided that—

- (1) the value of the raw materials and components which are on Open General Licence, and which

form an essential input for manufacture of articles by any new undertaking shall not be taken into account in computing the foreign exchange limits specified above ;

- (2) in respect of raw materials which are not on Open General Licence, but which are partly available within the country and partly to be imported, the raw materials mentioned in Schedule VI may be treated as "wholly imported" for the purpose of computing the foreign exchange admissible for a new undertaking"

- (ii) After Schedule V, the following Schedule shall be added namely :—

SCHEDULE VI

(List of raw materials which must be treated as "wholly imported" for the purpose of foreign exchange)

1. Copper
2. Zinc
3. Lead
4. Nickel
5. Tin
6. Sulphur
7. D.M.T.
8. Rock Phosphate
9. Asbestos Fibre
10. Methanol
11. 2-Ethyl Hexanol (Octanol)

[F. No. 12/112/79-LP]
BADAL ROY, Jt. Secy.